

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

तृतीय अयन (Third Semester)

पाठ्यचर्या : CC-1C (G-2) आधुनिक काव्य, कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी

3 कर्मांक (Credit)

उद्देश्य :

1. छात्रों को काव्य साहित्य से परिचित कराना।
2. छात्रों को कहानी साहित्य से परिचित कराना।
3. छात्रों को हिंदी कारक-व्यवस्था समझाना।
4. शब्द युग्म का अर्थ लिखकर प्रत्यक्ष वाक्य में प्रयोग समझाना।
5. संक्षेपण लेखन का प्रत्यक्ष बोध कराना।
6. सर्जनात्मकता का विकास कराना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                                    | तासिकाएँ       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I   | काव्य साहित्य :<br>1) नाच - अज्ञेय<br>2) देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता - सर्वेश्वरदयाल सक्सेना<br>3) एकलव्य से संवाद - अनुज लुगुन<br>4) हॉकी खेलती लड़कियाँ - कात्यायनी<br>5) कूड़ा बीनते बच्चे- अनामिका।<br>उक्त रचनाओं का,<br>कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन। | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II  | कहानी साहित्य :<br>1) धरती अब भी घूम रही है-विष्णु प्रभाकर<br>2) दूसरे - कमलेश्वर<br>3) सजा - मन्नू भंडारी<br>4) सलाम - ओमप्रकाश वाल्मीकि<br>5) छावनी में बेघर- अल्पना मिश्र<br>उक्त रचनाओं का,<br>कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन।                                | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-III | साहित्येतर पाठ्यक्रम :<br>1) हिंदी कारक व्यवस्था।<br>2) शब्द युग्म (50) अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग।<br>3) संक्षेपण।                                                                                                                                         | 15<br>तासिकाएँ |

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

चतुर्थ अयन (Fourth Semester)

पाठ्यचर्या : CC-1D (G-2) आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यावहारिक हिंदी

3 कर्मांक (Credit)

उद्देश्य :

1. छात्रों को व्यंग्य पाठ से परिचित कराना।
2. छात्रों को कहानी व्यंग्य पाठ का बोध कराना।
3. साक्षात्कार कला से अवगत कराना।
4. भाषा का मोबाइल तंत्र समझाना।
5. पल्लवन कला से अवगत करना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                        | तासिकाएँ       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I   | काव्य पाठ (व्यंग्य) :<br>1) तीनों बंदर बापू के - नागार्जुन<br>2) बात बतंगड - काका हाथरसी<br>3) विद्वान लोग - उदय प्रकाश<br>4) कितनी रोटी - अशोक चक्रधर<br>5) देश के लिए नेता - शैल चतुर्वेदी।<br>उक्त रचनाओं का,<br>कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन।   | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II  | कहानी पाठ (व्यंग्य) :<br>1) प्रेम की बिरादरी - हरिशंकर परसाई<br>2) अफसर - शरद जोशी<br>3) सावधान! हम इमानदार हैं - लतिफघोषी<br>4) मुख्यमंत्री का डंडा - सुदर्शन मजीठिया<br>5) झोले - सुभाष काबरा<br>उक्त रचनाओं का,<br>कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन। | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-III | साहित्येतर पाठ्यक्रम :<br>1) साक्षात्कार।                                                                                                                                                                                                        | 15<br>तासिकाएँ |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| 2) भाषा से संबंधित अंश। |  |
| 3) पल्लवन।              |  |

अंक विभाजन – पूर्णांक : 75

आंतरिक मूल्यांकन – 23 (लघुत्तरी परीक्षा-13, शोध परियोजना/समूह परियोजना/मौखिक प्रस्तुति/क्षेत्रीय अध्ययन- 10)

सत्रांत परीक्षा – 52

सत्रांत परीक्षा – प्रश्नपत्र का प्रारूप : (शैक्षिक वर्ष 2020-21 से आगे)

समय : 3 घंटे

अंक : 52

प्रश्न : 1 प्रथम इकाई (व्यंग्य) पर चार में कोई दो प्रश्न।

10 अंक

प्रश्न : 2 द्वितीय इकाई (कहानी) पर चार में कोई दो प्रश्न।

10 अंक

प्रश्न : 3 संसदार्थ व्याख्या

अ) प्रथम इकाई पर दो में से एक।

05 अंक

आ) द्वितीय इकाई पर दो में से एक।

05 अंक

प्रश्न : 4 इकाई तीन पर तीन में से दो प्रश्न।

10 अंक

प्रश्न : 5 तीनों इकाइयों पर बहुविकल्प (इ. एक – 4, इ. द्वितीय – 4, इ. तृतीय – 4) प्रश्न।

12 अंक

संदर्भ ग्रंथ :

1. 'हिंदी साहित्य और भाषा' – संपा.हिंदी अध्ययन मंडल, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, राजकमल प्रकाशक, नई दिल्ली।
2. प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप – डॉ. राजेंद्र मिश्र, राकेश शर्मा, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. प्रयोजनमूलक हिंदी अधुनातन आयाम –डॉ. अंबादास देशमुख, शैलजा प्रकाशन, कानपुर।
4. स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य का मूल्यांकन –डॉ. सुरेश माहेश्वरी, विकास प्रकाशन, कानपुर।

\*\*\*

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

तृतीय अयन (Third Semester)

पाठ्यचर्या : DSC – 1A (S-1) काव्यशास्त्र (सामान्य)

3कर्मिक (Credit)

उद्देश्य :

1. भारतीय काव्यशास्त्र का परिचय देना।
2. काव्य परिभाषा, तत्व आदि अवगत कराना।
3. काव्य के तत्व, शब्द-शक्तियों का परिचय देना।
4. रस का स्वरूप समझाना।
5. भारतीय काव्यशास्त्र में रुचि पैदा करना तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित कराना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                                | तासिकाएँ       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I   | काव्य परिभाषा (संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी)<br>काव्य हेतु- प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि।<br>काव्य प्रयोजन (भारतीय)                                   | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II  | काव्य के तत्व- भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व।<br>शब्द-शक्ति- परिभाषा स्वरूप, शब्द-शक्तियों का सोदाहरण परिचय -<br>अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-III | रस- परिभाषा, स्वरूप<br>रस के अंग- स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव।<br>रसों का सोदाहरण परिचय - शृंगार, वीर, हास्य, करुण।                            | 15<br>तासिकाएँ |

पूर्णांक : 75

आंतरिक मूल्यांकन : 23 अंक (लघुत्तरी परीक्षा- 13 अंक, शोध परियोजना/समूह परियोजना/माँखिक प्रस्तुति/क्षेत्रीय अध्ययन - 10 अंक)

सत्रांत परीक्षा : 52 अंक

प्रश्न पत्र का प्रारूप (शैक्षिक वर्ष 2020-21 से आगे)

समय : 3 घंटे

अंक : 52

प्रश्न 1. प्रथम इकाई पर चार में से कोई दो प्रश्न।

14 अंक

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

चतुर्थ अयन (Fourth Semester)

पाठ्यचर्या : DSC-1B (S-1) साहित्य के भेद

3क्रेडिट (Credit)

उद्देश्य :

1. छात्रों को साहित्य के भेद से अवगत कराना।
2. छात्रों को पद्य भेद से अवगत कराना।
3. महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य का परिचय कराना।
4. नाटक का स्वरूप समझाना।
5. छात्रों में नाट्य अभिनय की रुचि विकसित करना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                       | तासिकाएँ       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I   | काव्य के विविध भेद।<br>पद्य के भेद : प्रबंधकाव्य और मुक्तकाव्य का स्वरूप।<br>प्रबंध काव्य के भेद : महाकाव्य और खंडकाव्य, मुक्तक काव्य का परिचय। | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II  | गद्य के भेद : कहानी, उपन्यास, निबंध का तात्त्विक परिचय।<br>कहानी और उपन्यास में अंतर।                                                           | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-III | दृश्य काव्य : नाटक की परिभाषा और तत्व।<br>एकांकी : परिभाषा और तत्व।<br>नाटक के भेद : रेडियो, दूरदर्शन नाटक, मंचीय नाटक।                         | 15<br>तासिकाएँ |

पूर्णांक : 75

आंतरिक मूल्यांकन : 23 अंक (लघुत्तरी परीक्षा- 13 अंक, शोध परियोजना/समूह परियोजना/मौखिक प्रस्तुति/क्षेत्रीय अध्ययन - 10 अंक)

सत्रांत परीक्षा : 52 अंक

प्रश्न पत्र का प्रारूप

(शैक्षिक वर्ष 2020-21 से आगे)

समय : 3 घंटे

अंक : 52

प्रश्न 1. प्रथम इकाई पर चार में से कोई दो प्रश्न।

14 अंक

प्रश्न 2. द्वितीय इकाई पर चार में से कोई दो प्रश्न।

14 अंक



बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

तृतीय अयन (Third Semester)

पाठ्यचर्या : DSC – 2 A (S-2) मध्ययुगीन काव्य तथा उपन्यास साहित्य

3क्रेडिट (Credit)

उद्देश्य :

1. कबीर के साहित्य का परिचय देना।
2. मीराबाई के काव्य से अवगत कराना।
3. भारतीय उपन्यास की अवधारणा समझाना।
4. उपन्यास कृति का मूल्यांकन कला विकसित करना।
5. साहित्य कृतियों प्रस्तुत जीवनमूल्यों को आत्मविस्तृत करना।

| इकाई   | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तासिकाएँ                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| इकाई-I | <p>कबीर के 20 दोहे</p> <p>i) गुरुदेव को अंग</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।<br/>लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार।।</li> <li>2. पीछे लागा जाइ था, लोक वेद के साथी।<br/>आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी।</li> <li>3. जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध।<br/>अंधा अंधा ठेलिया, दून्धूँ कूप पडंत।।</li> <li>4. माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पडंत।<br/>कहै कबीर गुरु ग्यान थे, एक आघ उबरंत।।</li> <li>5. सतगुरु हम सँ रीझि करि, एक कहया प्रसंग।<br/>बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग।।</li> </ol> <p>ii) विरह को अंग</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम।<br/>जिव तरसै तुझ मिलन कूँ मनि नाहीं विश्राम।।</li> <li>2. यहु तन जालौ मसि करौ, लिखौ राम का नाउँ।<br/>लेखणि करुँ करंक की, लिखि लिखि राम पठाउँ।।</li> <li>3. अंधड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि।<br/>जीभड़ियाँ छाला पडया, राम पुकारि पुकारि।।</li> <li>4. परबति, परबति मैं फिरया, नैन गँवाये रोइ।<br/>सो बूटी पालँ नहीं, जातैं जीवनि होइ।।</li> <li>5. सुखिया सब संसार है, खायैं अरु सोवैं।<br/>दुखिया दास कबीर है, जागैं अरु रोवैं।।</li> </ol> | <p>15</p> <p>तासिकाएँ</p> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|         | <p><b>iii) माया को अंग</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कबीर माया पापणी, फंघ लै बैठि हाटि।<br/>सब जग तौ फंघे पड़या, गया कबीरा काटि॥</li> <li>कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खॉड।<br/>सतगुरु की कृपा भई, नहीं तौ करती भांड॥</li> <li>माया मुईन मन मुवा, मरि मरि गया सरीर।<br/>आसा तिष्णौ नौ मुई, यौ कहि गया कबीरा॥</li> <li>कबीर सो धन संचिए, जो आगैं कूँ होई।<br/>सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्या कोई॥</li> <li>कबीर माया मोह की, भई अँधारी लोइ।<br/>जे सूते ते मुसि लिये, रहे बसत कूँ रोइ॥</li> </ol> <p><b>iv) निंदा को अंग</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>निंदक नेड़ा राखिये, आँगणि कुटी बँधाइ।<br/>बिन सावण पाँणी बिना, निरमल करै सुभाइ॥</li> <li>कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ।<br/>आप ठग्यौ सुख रूपजै, और ठग्या दुख होइ॥</li> </ol> <p><b>v) कथनी बिना करनी को अंग</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ।<br/>एकै अधिर पीव का, पढ़ै सु पंडित होइ॥</li> </ol> <p><b>vi) भेष को अंग</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>तन को जोगी सब करै, मन कौं बिरला कोइ।<br/>सब सिधि सहजै पाइए, जे मन जोगी होइ॥</li> <li>माला फेरत जुग भया, पाय न मन का फेर।<br/>कर का मनका छौंड़ि दे, मन का मनका फेर॥</li> </ol> <p><b>अध्यनार्थ विषय :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कबीर का व्यक्तित्व</li> <li>कबीर की प्रगतिशीलता</li> <li>कबीर की भक्तिभावना</li> <li>कबीर का समाजसुधार</li> <li>कबीर की भाषा</li> <li>भावपक्ष, शिल्पपक्ष का अध्ययन।</li> </ul> |                           |
| इकाई-II | <p>मीराबाई के 10 पद (आरंभ के 10 पद)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मण थें परस हरि रे चरण॥</li> <li>तनक हरि चितवां म्हारी ओर॥</li> <li>म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी॥</li> <li>हे मा बड़ी बड़ी अखियान वारो, सांवरो मो तन हेरत हंसिके॥</li> <li>हेरी मा नंद को गुमानी म्हारे मनडे बस्यो॥</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>15</p> <p>तासिकाएँ</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | 6. धारो रूप देखा अटकी ॥<br>7. निपट बंकट छव अटके ॥<br>8. म्हा मोहणो रूप लुभाणी ॥<br>9. संवरा नंद नंदन, दीठ पड्यां माई ॥<br>10. आली री म्हा रे गेणां बाण पडी ॥<br>अध्यनार्थ विषय :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>मीराबाई का व्यक्तित्व, कृतित्व</li> <li>मीराबाई की भक्ति</li> <li>मीराबाई की प्रगतिशीलता</li> <li>मीराबाई की भाषा</li> <li>भावपक्ष, शिल्पपक्ष का अध्ययन।</li> </ul> |                |
| इकाई-III | उपन्यास : स्वरूप, तत्व।<br>उपन्यास कृति : एक पत्नी के नोटस - ममता कालिया<br>लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व<br>कथ्यगत अध्ययन, शिल्पगत अध्ययन।                                                                                                                                                                                                                                                   | 15<br>तासिकाएँ |

पूर्णांक : 75

आंतरिक मूल्यांकन : 23 अंक (लघुत्तरी परीक्षा- 13 अंक, शोध परियोजना/समूह परियोजना/मौखिक प्रस्तुति/क्षेत्रीय अध्ययन - 10 अंक)

सत्रांत परीक्षा : 52 अंक

प्रश्न पत्र का प्रारूप (शैक्षिक वर्ष 2020-21 से आगे)

समय : 3 घंटे

अंक : 52

प्रश्न 1. प्रथम इकाई पर दो में से एक प्रश्न।

07 अंक

प्रश्न 2. द्वितीय इकाई पर दो में से एक प्रश्न।

07 अंक

प्रश्न 3. तृतीय इकाई पर दो में से एक प्रश्न।

07 अंक

प्रश्न 4. ससंदर्भ व्याख्या :

प्रथम इकाई में से संदर्भ (दो में एक)

07 अंक

द्वितीय इकाई में से संदर्भ (दो में एक)

07 अंक

तृतीय इकाई में से संदर्भ (दो में एक)

07 अंक

प्रश्न 5. तीनों इकाइयों पर बहुविकल्प (इकाई-I : 3, इकाई-II : 4, इकाई-III : 3) 10 प्रश्न।

10 अंक



बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)  
चतुर्थ अयन (Fourth Semester)

पाठ्यचर्या : DSC -2B (S-2) मध्ययुगीन काव्य तथा नाटक साहित्य

3 कर्मांक (Credit)

उद्देश्य :

1. रहीम के काव्य का बोध कराना।
2. बिहारी की काव्य अभिव्यजना समझाना।
3. हिंदी नाटक और रंगमंच से अवगत कराना।
4. छात्रों में अभिनय गुण विकसित कराना।
5. नाट्यालोचना से अवगत करना।

| इकाई    | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तासिकाएँ                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| इकाई- I | <p>रहीम के 20 दोहे</p> <p><b>i) भक्ति</b></p> <p>① समय दशा कुल देखि कै, सबै करत सनमान।<br/>रहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान॥</p> <p>2. रहिमन को कोड का करै, ज्वारी, चोर, लवार।<br/>जो पति राखनहार है, माखन चाखनहार॥</p> <p>3. जेहि रहीम तन मन लियो, कियो हिए विचभौन।<br/>तासों दुख सुख कहन की, रही बात अब कौन॥</p> <p>4. गहि सरनागति राम की, भव सागर की नाव।<br/>रहिमन जगत उधार कर, और न कछु उपाव॥</p> <p><b>ii) संगति का प्रभाव</b></p> <p>① जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।<br/>चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग॥</p> <p>2. मूढ़ मंडली में सुजन, ठहरत नहीं विसेषि।<br/>स्याम कंचन में सेत ज्यों, दूरि कीजिअत देखि॥</p> <p>3. यह रहीम निज संग लै, जनमत जगत न कोय।<br/>बैर, प्रीति, अभ्यास, जस होत होत ही होय॥</p> <p>4. रहिमन उजली प्रकृत को, नहीं नीच को संग</p> | <p>15</p> <p>तासिकाएँ</p> |

करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग॥

**iii) दीनता और बड़प्पन**

1. जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग।  
कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण भिताई जोग॥
2. थोड़ो किए बड़ें की, बड़ी बड़ाई होय।  
ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरिधर कहत न कोय॥
3. दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय।  
जो रहीम दीनहिं लखै, दीनबंधु सम होय॥
4. रहिमन देखि बड़ें को, लघु न दीजिये डारि।  
जहाँ काम आवें सुई, कहा करे तरवारि॥

**iv) नीति**

1. खैर, खून खौंसी, खुसी, वैर, प्रीति, मद-पान।  
रहिमन दावे न दबै, जानत सकल जहान॥
2. रुठें सुजन मनाइए, जो रुठें सो बार।  
रहिमन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार॥
3. दानों रहिमन एक से, जौ लाँ बेलत नाहिं।  
जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहिं।
4. बिगरी बात बनै नहीं, लाख करो किन कोय।  
रहिमन फोट दूध को, मथे न माखन होय॥

**v) संत महिमा**

1. तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान।  
कहि रहीम, पर-काज हित, संपति संचहिं सुजान॥
2. मथत-मथत माखन, दही-मही बिलगाय।  
रहिमन सोई भीत है, भीर परे ठहराय॥
3. रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहिं।  
उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहिं॥
4. दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहचानि।  
सोच नहीं वित-हानि को, जो न होय हित हानि॥



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|          | <p>अध्ययनार्थ विषय :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• रहीम का व्यक्तित्व, कृतित्व</li> <li>• रहीम की भाषा</li> <li>• रहीम की भक्तिभावना</li> <li>• रहीम के काव्य की प्रासंगिकता</li> <li>• भावपक्ष, शिल्पपक्ष का अध्ययन।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| इकाई- II | <p>बिहारी के 20 दोहे</p> <p>i) नायक-नायिका वर्णन</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मेरी भव बाधा हरौ राधानागरि सोई।<br/>जा तन की झाई परै स्याम हरित दुति होइ॥</li> <li>2. कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात।<br/>भरे भौन में करत हैं नैननि में सब बात॥</li> <li>3. नम लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन।<br/>रति पाली आळी अनत आये बनमाली न॥</li> <li>4. सघन कुंज घन घन तिमिर अधिक अँधेरी राति।<br/>तऊन दुरिहै स्याम यह दीप सिखा सी जाति॥</li> <li>5. सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलौने गात।<br/>मनौ नीलमनि सौल पर आतप परयौ प्रभात॥</li> </ol> <p>ii) संयोग-श्रृंगार वर्णन</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रीतम दृग मिहिचत प्रिया पानि परस सुख पाय।<br/>जानि पिछानि अजान लौं नैकु न होति जनाय॥</li> <li>2. लटकि लटकि लटकन चलत डटत मुकुट की छौंह।<br/>चटक भरयौ नट मिल गयौ अटक भटक मन मॉह॥</li> <li>3. चिरजीवौ जोरी जरै क्यों न सनेह गंभीर।<br/>को घटि ये वृषभानजा वे हलधर के वीर॥</li> <li>4. मन न धरति मेरौ कहयौ तू आपने सयान।<br/>अहे परनि परि प्रेम की परहथ पार न प्रान॥</li> <li>5. लाल तिहारे विरह की अगनि अनूप अपार।</li> </ol> | <p>15</p> <p>तासिकाएँ</p> |



सरसै बरसै नीरहूँ झरहूँ मिटे न झार॥

**iii) सिख-नख वर्णन**

1. अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सी देह।  
दिया बढ़ायेहूँ रहै बढौ उजेरो मेह॥
2. पहिर न भूखन कनक के कहि आवतु इहि हेत।  
दर्पन के से मोरचा देह दिखाई देत॥
3. छकि रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध।  
ठौर ठौर झौरत झँपत झौर झौर मधु अंध॥
4. पावस घन अँधियारि में रह्यौ भेद नहि आन।  
राति घौस जान्यौ परै लखि चकई चकवान॥
5. दिस दिस कुसमित देखिये उपवन बिपिन समाज।  
मनहु बियोगिनि कौं कियो सर पंजर रितुराज॥

**iv) नवरस-इत्यादि वर्णन**

1. नहि पराग नहि मधुर मधु नहि विकास इहि काल।  
अली कली ही तें बँध्यौ आगे कौन हवाल॥
2. कनक कनक तें सौगुनी मादिकता अधिकाइ।  
उहि खाये बौराइ जग इहि पाये बौराइ॥
3. जप माला छापे तिलक सरै न एकौ काम।  
मन काचै नाचै बृथा साँचे राम॥
4. तज तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुराग।  
जिहिं ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग॥
5. जगत जनायौ जिहिं सकल सो हरि जान्यौ नाहिं।  
ज्यों आखनि सब देखियै आँख न देखी जाहिं॥

अध्ययनार्थ विषय :

- बिहारी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व
- बिहारी की प्रासंगिकता
- बिहारी की अलंकार योजना
- बिहारी की भाषा

|           |                                                                                                                                                       |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | • भावपक्ष, शिल्पपक्ष का अध्ययन।                                                                                                                       |                |
| इकाई- III | नाटक : स्वरूप, तत्त्व।<br>नाटक कृति : महाभोज - मन्नू भंडारी<br>लेखक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व<br>कथ्यगत अध्ययन, रंगमंचीय अध्ययन, तात्त्विक मूल्यांकन। | 15<br>तासिकाएँ |

संदर्भ ग्रंथ :

1. बिहारी सतसई - संपा. लल्लू जी लाल, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
2. हिंदी काव्य सौरभ - संपा. कन्हैयालाल सहगल, एच. एच. एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
3. रंगभाषा - नेमिचंद्र जैन
4. नाटक और रंगमंच - संपा. गिरीश रस्तोगी
5. महाभोज - मन्नू भंडारी, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली
6. नाट्यालोचन - डॉ. माधव सोनटक्के
7. हिंदी नाट्य विमर्श - संपा. सदानंद भोसले

\*\*\*

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

तृतीय अयन (Third Semester)

पाठ्यचर्या : SEC-2A अनुवाद स्वरूप एवं व्यवहार

2कर्मांक (Credit)

उद्देश्य :

1. अनुवाद कौशल से छात्रों को अवगत कराना।
2. अनुवाद का स्वरूप समझाना।
3. अनुवाद क्षेत्र से परिचय कराना।
4. हिंदी से मराठी में प्रत्यक्ष अनुवाद कार्य कराना।
5. अंग्रेजी से हिंदी, मराठी में अनुवाद कौशल का विकास कराना।

| इकाई    | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                 | तासिकाएँ       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I  | 1. अनुवाद : परिभाषा एवं स्वरूप<br>2. अनुवाद : प्रक्रिया के सोपान<br>3. अनुवाद : सहायक सामग्री<br>4. अनुवाद : अनुवादक के गुण                                                               | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II | 1. अनुवाद : प्रत्यक्ष व्यवहार<br>2. मराठी वाक्यों का हिंदी अनुवाद।<br>3. अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद।<br>4. मराठी परिच्छेद का हिंदी अनुवाद।<br>5. अंग्रेजी परिच्छेद का हिंदी अनुवाद। | 15<br>तासिकाएँ |

पूर्णांक : 50

आंतरिक मूल्यांकन : 15 अंक (लघुत्तरी परीक्षा- 10 अंक, शोध परियोजना/समूह परियोजना/मौखिक प्रस्तुति/क्षेत्रीय अध्ययन- 5 अंक)

सत्रांत परीक्षा- 35 अंक

प्रश्नपत्र का स्वरूप

समय : 3 घंटे

अंक 35

प्रश्न 1. प्रथम इकाई पर चार में से दो प्रश्न।

14 अंक

प्रश्न 2. अ. मराठी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। (दस में से सात)

07 अंक

आ. अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। (दस में से सात)

07 अंक

प्रश्न 3. हिंदी परिच्छेद का मराठी/अंग्रेजी में अनुवाद।

07 अंक



बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षिक वर्ष 2020-2021 से)

चतुर्थ अयन (Fourth Semester)

पाठ्यचर्या : SEC- 2B माध्यम लेखन

2क्रेडिट (Credit)

उद्देश्य :

1. छात्रों को माध्यम लेखन से परिचित कराना।
2. सृजनात्मक लेखन कौशल विकसित कराना।
3. माध्यम लेखन से अवगत कराना।
4. श्रव्य-दृश्य माध्यमों की भाषा से अवगत कराना।

| इकाई    | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तासिकाएँ       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई-I  | माध्यम लेखन – सैद्धांतिक पक्ष<br>1. माध्यम का स्वरूप<br>2. अवधारणा<br>3. महत्व एवं उद्देश्य<br>4. माध्यम एवं विधा परिचय : i) मुद्रित माध्यम ii) श्रव्य माध्यम iii) दृश्य-श्रव्य माध्यम iv) नव-माध्यम : कंटेंट लेखन, ब्लॉग लेखन।                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15<br>तासिकाएँ |
| इकाई-II | माध्यम लेखन : फीचर लेखन<br>1. फीचर की परिभाषा एवं अवधारणा।<br>2. सामग्री संकलन स्रोत।<br>3. फीचर के तत्व – विषय वस्तु, प्रस्तावना, शीर्षक, विवेचन, छायांकन।<br>4. फीचर लेखन के गुण : i) विश्वसनीयता ii) सरसता एवं सहजता iii) रोचकता एवं संक्षिप्तता iv) प्रासंगिकता v) प्रचलित शब्दावली का प्रयोग।<br>5. फीचर और अन्य विधा में भेद : समाचार, आलेख।<br>6. फीचर के विभिन्न प्रकार : समाचार फीचर, घटना परक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, चिंतन परक फीचर, साहित्यिक फीचर, फोटो फीचर।<br>7. रेडियो फीचर, टेलीविजन फीचर। | 15<br>तासिकाएँ |

## हिंदी पाठ्यक्रम Hindi Syllabus

### अनुक्रम

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला/बी. एस्सी. द्वितीय वर्ष विज्ञान  
तृतीय एवं चतुर्थ अयन (Third & Fourth Semester)  
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ से

| कोर्स नं.               | तृतीय एवं चतुर्थ अयन           | क्रेडिट | पृष्ठ<br>क्रमांक |
|-------------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| बी. ए. द्वितीय वर्ष कला |                                |         |                  |
| MIL (Hindi)             | हिंदी भाषा शिक्षण (तृतीय अयन)  | २       | ०३               |
| MIL (Hindi)             | हिंदी भाषा शिक्षण (चतुर्थ अयन) | २       | ०५               |

\*\*\*

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ से)

तृतीय अर्ध (Third Semester)

पाठ्यचर्या : MIL (Hindi) हिंदी भाषा शिक्षण

२ क्रेडिट (Credit)

उद्देश्य :

- छात्रों में हिंदी भाषा श्रवण कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा संवाद कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा वाचन कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा लेखन कौशल विकसित करना।
- हिंदी भाषा-विधि तथा भाषा-व्यवहार से अवगत करना।
- भाषा कौशल विकसित करना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                     | तासिकाई       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इकाई- I  | वर्ण विचार :<br>१) हिंदी वर्णमाला - परिचय ✓<br>२) लिपि - परिचय<br>३) वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण ✓<br>४) स्वराघात ✓<br>५) संधि : स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।                       | १५<br>तासिकाई |
| इकाई- II | भाषा कौशल शिक्षण : लघुकथाओं द्वारा भाषा कौशल शिक्षण (श्रवण, संवाद, वाचन, लेखन)<br>१) शिक्षा - ज्योति जैन<br>२) पानी के पेड़ - ज्योति जैन<br>३) पशुभाषा - ज्योति जैन<br>४) अपशयुन - ज्योति जैन | १५<br>तासिकाई |



|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| ५) ममता — डॉ. लता अग्रवाल                  |  |
| ६) गरीब का लंच बॉक्स — डॉ. लता अग्रवाल     |  |
| ७) मैं ही कृष्ण हूँ — डॉ. लता अग्रवाल      |  |
| ८) सत्य की अग्नि परीक्षा — डॉ. लता अग्रवाल |  |

संदर्भ ग्रंथ :

१. हिंदी भाषा शिक्षण — संपा. हिंदी अध्ययन मंडल, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
२. हिंदी व्याकरण — पं. कामताप्रसाद गुरु, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
३. प्रयोजनमूलक हिंदी — डॉ. माधव सोनटक्के, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

\*\*\*

बी. ए. द्वितीय वर्ष कला (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ से)  
चतुर्थ अर्ध (Fourth Semester)

पाठ्यचर्या : MIL (Hindi) हिंदी भाषा शिक्षण

२ क्रेडिट (Credit)

उद्देश्य :

- छात्रों में वाक्य के भेद से अवगत करना।
- छात्रों में विशेष प्रकार के वाक्यों से परिचित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा श्रवण कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा संवाद कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा वाचन कौशल विकसित करना।
- छात्रों में हिंदी भाषा लेखन कौशल विकसित करना।
- हिंदी भाषा-विधि तथा भाषा-व्यवहार से अवगत करना।
- हिंदी काव्य-गीत सृजन कौशल विकसित करना।

| इकाई     | पाठ्यविषय                                                                                                                                                                                                                                                         | तासिकाएँ       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| इकाई- I  | वाक्य विचार : वाक्य और वाक्य के भेद<br>१) साधारण वाक्य<br>२) मिश्र वाक्य<br>३) संयुक्त वाक्य<br>४) संक्षिप्त वाक्य<br>५) विशेष प्रकार के वाक्य (विधानार्थक, प्रश्नार्थक, निपेधवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेशसूचक, संकेतार्थक)<br>६) विरामचिह्न। | १५<br>तासिकाएँ |
| इकाई- II | भाषा कौशल शिक्षण : गोपालदास : 'नीरज' के काव्य-गीत<br>(०८ गीत) द्वारा श्रवण, संवाद, वाचन, लेखन कौशल शिक्षण।<br>१) आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ<br>२) राधा ने माला जपी श्याम की                                                                                  | १५<br>तासिकाएँ |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ३) फूलों के रंग से                   |  |
| ४) खिलते हैं गुल यहाँ                |  |
| ५) जीवन की बगिया महकेगी              |  |
| ६) लिखे जो खत तुझे                   |  |
| ७) आज मदहोश हुआ जारे                 |  |
| ८) कारवाँ गुजर गया, गुवार देखते रहे। |  |

सं. ६, ३३३

३३६१  
धूप, ३३२

संदर्भ ग्रंथ :

१. हिंदी भाषा शिक्षण — संपा. हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
२. हिंदी व्याकरण — पं. कामताप्रसाद गुरु, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
३. प्रयोजनमूलक हिंदी — डॉ. माधव सोनटक्के, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

मनका गुवार निकायन - ३३६१